

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 1973/फाल्गुन 15, 1894
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 1973/PHALGUNA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES
(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March 1973

G.S.R. 158(E).—Whereas the mines specified in column (2) of the Table below have been found, after an investigation, to contain coal :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance, 1973 (1 of 1973), the Central Government hereby makes a declaration that the mines specified in the Table below contain coal.

2. The coal mines specified in the Table below are in addition to those specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 53(E) dated the 8th February, 1973.

TABLE

Sl. No.	Name and address of mine	Name and address of owner
(1)	(2)	(3)

ASSAM—MEGHALAYA

Jeyapore Coalfield:

1. Bimalapore, Post Office Sibsagar . . . Bimalapore Collieries Limited Post Office Sibsagar, Assam.

(1)	(2)	(3)
2. Dilli, Post Office Jorhat, Sibsagar	.	Dilli Collieries Association Limited Post Office Jorhat, District—Sibsagar, Assam.
3. Jeypore, Post Office Namrup, Lakhimpur	.	Jeypore Collieries Private Limited Post Office, Namrup, District—Lakhimpur, Assam.
<i>Khasi & Jaintia Coalfield :</i>		
4. Barsora	.	Assam-Bengal Cement Company Limited, 7, Wellesley Place, Calcutta-I.
5. Cherapunji	.	The Cherrachatak Ropeway Company Limited 1 & 2 Old Court House Corner, Calcutta-I.
6. Laitryngew	.	The Cherrachatak Rope-way Company Limited 1 & 2 old Court House Corner, Calcutta-I.
7. Laitryngew	.	The Laitryngew Cherra Coal Association, Post office Cherapunji, District U.K.Hills Assam.
8. Mawsynram, Post Office Mawsynram, Upper Khasi and Jaintia Hills.	.	Messrs. Sidroka Marbaniang, Post Office Shillong, Assam.
<i>Makum Coalfield :</i>		
9. Namdang, Post Office Marghariata, Upper Assam, Lakhimpur.	.	Assam Railway & Trading Company, Post Office Marghariata, District Lakhimpur, Upper Assam.
<i>Nazira Coalfield</i>		
10. Borzon Kongan, Konguya	.	The Nazira Coal Company Limited, 16, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.
11. Waking	.	The Nazira Coal Company Limited, 16, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.
BIHAR		
<i>Bokaro Coalfield :</i>		
12. Datma, Post Office Kuju, Hazaribagh.	.	K.N. Pal Singh, Post Office Banahappa, Hazaribagh
<i>Daltonganj Coalfield</i>		
13. Jagaldaga, Post Office Lathar, Palamau	.	Shri S.K. Dutta, Post Office Latehar, District Palamau.
<i>Hura Coalfield :</i>		
14. Hura Block I A, Post Office Mahagama, District Santhal Parganas	.	Dwarka Prasad Marwari, Post Office Mahagama, District Santhal Parganas.
15. Hura Block I B, Post Office Mahagama, District Santhal Parganas.	.	Dwarka Prasad Marwari, Post Office Mahagama District Santhal Parganas.
<i>Jainty Coalfield ; ;</i>		
16. Mondal's Damagora, Post Office Chitra, Santhal Parganas. ;	.	Narendra Nath Mondal, Post Office Dishergarh, Burdwan.
<i>Jharia Coalfield :</i>		
17. Banarjee's Dohery, Post Office Jharia	.	S.B. Banarjee & Sons, Post Office Jharia.
18. Central Chandore (Closed)	.	Shrimati Jyotsna Devi, Post Office Jharia Dhanbad.
19. East Godhur	.	East Godhur Colliery Company Private Limited, Post Office Dhanbad.
20. Khas Pandedih	.	The Khas Pandedih Colliery Company, Post Office Sijua, Dhanbad.
21. Keshalpur, Post Office Katrasgarh Dhanbad.	.	Seo Shanker Bole, Post Office Jharia Dhanbad

(1)	(2)	(3)
22. Laxmi Salanpur, Post Office Katrasgarh, Dhanbad.	L.B.Singh & Company, Post Office Katrasgarh, Dhanbad	
23. Modern Sudamdih, Post Office Patherdih, Dhanbad.	Messrs Modern Sudamdih Colliery Company, Post Office Patherdih, Dhanbad.	
24. New Auckland Colliery, Post Office Katrasgarh.	Sri Sanker Sen, P-41, S.N.Roy Road, Calcutta-53.	
25. New Dobary, Post Office Jharia, Dhanbad	New Dobary Coal Company, Post Office Jharia, Dhanbad.	
26. New Fularitand, Post Office Jharia, Dhanbad.	P.D. Agarwala, Post Office Jharia, Dhanbad.	
27. New Kunji, Post Office Mohuda	Mrs. B. Kaur, Tower House, Dhanbad.	
28. New Tasra, Post Office Sindri, Dhanbad	New Tasra Coal Company, Post Office Jharia, Dhanbad.	
29. Pathergoria, Post Office Mohuda, Dhanbad	Bharat Mining Corporation, 9, Old-Court House, Calcutta.	
30. Pure Bansjora, Post Office Sijua, Dhanbad	Madan Lal Biswatia, Post Office Jharia, Dhanbad.	
31. Pure Chandore	The West Chandore Colliery Company, Post Office Jharia, Dhanbad.	
32. Selected Ghanuadih, Post Office Jharia, Dhanbad	Selected Ghanuadih Colliery Company, Post Office Jharia, Dhanbad.	
33. Selected Joyrampur, Post Office Jharia, Dhanbad.	Selected Joyrampur Colliery Company, Ananda Bhawan, Post Office Jharia, Dhanbad.	
34. South Jamdiha, Post Office Nudkharkee, Dhanbad.	Narwarlal Shamaldas & Company, Post Office Nudkharkee, Dhanbad.	
35. Sree Jagannath, Post Office Tundoo, Dhanbad.	North Baramessia Colliery Company Limited, Ashok Bagan, Post Office Dhanisar, Dhanbad.	
36. Upper Jeenagora, Post Office Jealgora . .	G.S. Arwal, 243, Sector 9/C, Chanfigarh.	
37. Upper Jharia, Post Office Jharia, Dhanbad.	Upper Jharia Colliery Company, Post Office Jharia, Dhanbad.	
38. West Govindpur	West Govindpur Coal Company, Post Office, Katrasgarh, Dhanbad.	
39. West Keshalpur, Post Office Katrasgarh, Dhanbad.	West Keshalpur Colliery Company, Post Office Katrasgarh, Dhanbad.	
40. West Maheshpur, Post Office Tundoo, Dhanbad.	Shri Agarwalla Coal Company, Post Office Tundoo, Dhanbad.	
41. West Salanpur, Post Office, Katrasgarh, Dhanbad.	Ganga Bishan Mohandra, Post Office Jharia, Dhanbad.	

Karanpura Coalfield

42. Pakribarwadih	Syed Bakir Mehdi, Ranchi.
-----------------------------	---------------------------

Mugma Coalfield

43. Basumata, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.	D.N. Chandra & Brothers, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.
44. Bhogkat, Post Office Mugma, Dhanbad. . .	Satya Narayan Coal Company, Post Office Mugma, Dhanbad.
45. Central Laikdih, Post Office Mugma, Dhanbad.	Central Laikdih Colliery Company, Post Office Mugma, Dhanbad.
46. Khas Brindabanpur, Post Office Mugma, Dhanbad.	Balkrishna Coal Company.
47. Khas Edgercoor, Post Office Kumardhubi, Dhanbad.	B.N. Mondal & L. N. Agarwalla, Post Office Kumardhubi, Dhanbad.
48. Kooardih, Barakar, Burdwan	Banerjee & Company, Post Office Barakar, Burdwan.
49. Lower Begunia, Post Office Mugma, Dhanbad.	Associated Laikdih Colliery Limited, 18, Netaji Subhas Road, Calcutta.
50. Selected Bhaljori, Post Office Dhanbad	Selected Bhaljori Colliery Company Private Limited, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.
51. Selected Laikdih, Post Office Govindpur, Dhanbad.	Satya Narayan Agarwal & Others, Post office Govindpur, District Dhanbad.
52. South East Badjna, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.	J.K. Banerjee & Others, Post Office 'Nirsachatti, Dhanbad.
53. West Shampur, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.	Beharilal Agarwalla, Post Office Nirsachatti, Dhanbad.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

MADHYA PRADESH

Pench-Kanhan Coal field

- | | |
|---|---|
| 54. East Barkuhi, Post Office Parasea, District Chhindwara. | J. Trivedi & Brothers, Balaghat, District Chhindwara. |
| 55. Ghorawari Kalan, Post Office Ghorawari, Chhindwara. | T.K. Sukhla, Post Office Ghorasora, District Chhindwara. |
| 56. Jamkunda, Post Office Junerdeo, Chhindwara. | N.H. Ojha & Company (Private) Limited, Post Office Junerdeo, District Chhindwara. |
| 57. South Panara, Post Office Junerdeo, Chhindwara. | Lala Bikhula-Jagannath, Post Office Junerdeo, District Chhindwara. |

Umaria Coalfield

- | | |
|--|---|
| 58. Umaria, Post Office Umaria, Sahdol | Rewa Coalfield Limited, Post Office Umaria District Sahdol. |
|--|---|

WEST BENGAL

Ranegunge Coalfield

- | | |
|---|---|
| 59. Ekrahi Nandi (New Jamuri) | |
| 60. Harisinga Coal Pit | Biawanath Himnathsingha |
| 61. Jambad (Closed) | S.S. Devi's Jambad Coal Concern Private Limited. |
| 62. Jamuria 5 and 6 Pits, Post Office Charanpur, Burdwan. | Equitable Coal Company Limited, 2, Fairlie Place, Calcutta. |
| 63. Jamuria 7 and 8 Pits, Post Office Charanpur, Burdwan. | Equitable Coal Company Limited, Fairlie Place, Calcutta. |
| 64. Kankartola, Post Office Rasa, Burdwan | Kankartola Colliery Company Limited, 33A, Dharmatola Street, Calcutta-13. |
| 65. Kasta, Post Office Churulia, Burdwan | Kasta Coalfields Limited, Post Office Ranigunge, District Burdwan. |
| 66. Madanpur
(Discontinued vide C.S. Dhanbad letter No. C.S./Genl/22, dated 5-8-64) | Ghanshyam Coal Industries Private Limited 9 Bhavani Dutta Lane, Calcutta-7. |
| 67. Saltore, Post Office Saltore, Purulia. | Barakar Coal Company, Chartered Bank Building, Calcutta. |
| 68. Selected Baraboni (Amalgamated with Bhanora South), Post Office Charanpur, Burdwan. | Selected Baraboni Coal Company Limited, Post Office Charanpur, Burdwan. |

[No. C II-100 (I)/73.]

S. B. LAL, Joint Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1973

सा० का० नि० 158 (अ).—यतः निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट खानों में, अन्वेषण के पश्चात्, कोयला अंतर्विष्ट होना पाया गया है।

अतः अब, कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 1) की धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट खानें कोयला अंतर्विष्ट करती हैं।

2. निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट कोयला खानें, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 53 (अ) तारीख 8 फरवरी, 1973 में विनिर्दिष्ट खानों में अतिरिक्त हैं।

सारणी

क्रम सं०	खान का नाम और पता	स्वाभी का नाम और पता
1	2	3

आसाम-मेघालय

जैपुर कोलफील्ड्स

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | बिमलपुर, डाकघर सिबसागर | बिमलपुर, कोलियरीज लिमिटेड, डाकघर, सिबसागर, आसाम । |
| 2 | डिल्ली, डाकघर जोरहट, सिबसागर | डिल्ली कोयलरीज एसोशिएशन लिमिटेड, डाकघर जोरहट, जिला सिबसागर, आसाम । |
| 3 | जैपुर, डाकघर नामरूप, लखिमपुर | पुर कोलियरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर नामरूप, जिला लखिमपुर, आसाम । |

खासा और जयप्रिता कोलफील्ड्स

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 4 | बडसोरा . . . | आसाम-बंगाल सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, 7, बेलेजली प्लेस, कलकत्ता-1 |
| 5 | चेरा पूजी . . . | दि चेरीछटक रोप-वे कम्पनी लिमिटेड, 1 व 2 ओल्ड कोर्ट हाउस कार्नेर, कलकत्ता-1 |
| 6 | लैट्यागु . . . | दि चेरीछटक रोप-वे कम्पनी लिमिटेड, 1 व 2 ओल्ड हाउस कार्नेर, कलकत्ता-1 |
| 7 | लैट्यागु . . . | दि लैट्यागु चैरा कोल एसोशिएशन, डाकघर चैरापजी, जिला यू० के० हिल्स, आसाम । |
| 8 | मोस्यजाम, डाकघर, यू० के० और जे० हिल्स | मैसर्स सिन्क्रोका मरबनियाग, डाकघर, शिलांग, आसाम । |

मकुमम कोलफील्ड्स

- | | | |
|----|--|---|
| 9 | नाम्डेग डाकघर, मरधारियाता और आसाम, लखिमपुर | आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, डाकघर मरधारियाता, जिला लखिमपुर, अपर आसाम । |
| 10 | बोर्जन कागन, कोगुया . . . | दि नाजिरा कोल कम्पनी लिमिटेड, 16, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता । |
| 11 | बाकिटग . . . | दि नाजिरा कोल कम्पनी लिमिटेड, 16, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता । |

बिहार

बोकारो कोलफील्ड्स

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 12 | दात्ता, डाकघर कुज, हजारीबाग | क० एन० पाल सि०, डाकघर बानहूपा, हजारीबाग । |
| 13 | अंगारुवा, डाकघर, लटेहर, पलामू । | श्री एस० के० दत्ता, डाकघर लटेहर, जिला पलामू । |

1

2

3

जालन्धरगंज कोलफील्ड

- 14 हुरा ब्लॉक 1ए, डाकघर महागम, द्वारिका प्रसाद मारवाड़ी, डाकघर महागम,
जिला एस० पी० जिला एस० पी०
- 15 हुरा ब्लॉक 1बी, डाकघर महागम, द्वारिका प्रसाद मारवाड़ी, डाकघर महागम,
जिला एस० पी० जिला एस० पी० ।

जैमती कोलफील्ड

- 16 मण्डलस डमगोरा, डाकघर चित्त, एस० नरेन्द्र नाथ मण्डल, डाकघर दिशोरगढ़, बर्दवान ।
पी०

झरिया कोलफील्ड

- 17 बार्जीज डोबरी डाकघर झरिया एम० बी० बनर्जी एन्ड सन्स, डाकघर झरिया ।
- 18 रयनटूल चन्दोर (बंद पड़ी) श्रीमती ज्योत्सना देवी, डाकघर झरिया,
धनबाद ।
- 19 ईस्ट गोधुर ईस्ट गोधुर कोलियरी कम्पनी (प्राईवेट)
लिमिटेड, डाकघर धनबाद ।
- 20 खास पन्डेडिह दि खास पन्डेडिह कोलियरी कम्पनी, डाकघर
सिजुवा ।
- 21 केशलपुर, डाकघर कटरासगढ़, धन- शिव शंकर भोले, डाकघर झरिया, धनबाद ।
बाद
- 22 लक्ष्मी सालनपुर, डाकघर कटरासगढ़, एल० बी० सिंह एण्ड कम्पनी, डाकघर कटरास-
धनबाद गढ़ धनबाद ।
- 23 मार्डेन सुदाम दीह, डाकघर पाथेरडीह, मैसर्स मार्डेन मुदामडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर,
धनबाद पाथेरडीह, धनबाद ।
- 24 न्यू ग्रीकलैण्ड कोलियरी, डाकघर सी शंकर सेन, पी-41, एस० एम० राय रोड,
कटरासगढ़ कलकत्ता-53 ।
- 25 न्यू दोबारी, डाकघर झरिया, धनबाद । न्यू दोबारी कोल कम्पनी, डाकघर झरिया,
धनबाद ।
- 26 न्यू कुलारीटांड, डाकघर झरिया, पी० डी० अग्रवाल, डाकघर झरिया, धनबाद ।
धनबाद
- 27 न्यू कुंजी, डाकघर मोहुदा श्रीमती वी० कोर, टावर हाउस, धनबाद ।
- 28 न्यू टसरा, डाकघर सिन्द्री, धनबाद न्यू टसरा कोल कम्पनी, डाकघर झरिया,
धनबाद ।
- 29 पाथेरगोरिया, डाकघर मोहुदा, धनबाद भारत माइनिंग कारपोरेशन, 9 ओल्ड कोर्ट
हाउस, कलकत्ता ।
- 30 प्यारे बांमजोरा, डाकघर सिजुआ, मदन लाल बमवाटिया, डाकघर झरिया,
धनबाद । धनबाद ।
- 31 प्यारे चांदशोर दि वेस्ट चांदशोर कोलियरी कम्पनी, डाकघर
झरिया, धनबाद ।

1	2	3
32	सेलेक्टेड धामुआदीह, डाकघर झरिया, धनबाद	सेलेक्टेड धामुआदीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर, झरिया, धनबाद ।
33	सेलेक्टेड जोयाराम, डाकघर झरिया, धनबाद	सेलेक्टेड जोयारामपुर कोलियरी कम्पनी, 'आनन्द भवन,' डाकघर, झरिया, धनबाद ।
34	साउथ जामदीहा, डाकघर नुवखुरकी, धनबाद	नटवरलाल शामलदाम एण्ड कम्पनी, डाकघर नुवखुरकी, धनबाद ।
35	श्री जगन्नाथ, डाकघर टुण्डु, धनबाद	नार्थ बरामेस्तिया कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, अशोक बागान, डाकघर धनसार, धनबाद ।
36	अपर जीतागोरा, डाकघर जीलगोरा	जी० एस० अतवाल, 243, सेक्टर 9/सी, चन्डीगढ़ ।
37	अपर झरिया, डाकघर झरिया, धनबाद	अपर झरिया कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, धनबाद ।
38	वेस्ट गोविंदपुर	वेस्ट गोविंदपुर कोल कम्पनी, डाकघर कटरास- गढ़, धनबाद ।
39	वेस्ट केशलपुर, डाकघर कटरासगढ़, धनबाद	वेस्ट केशलपुर कोलियरी कम्पनी, डाकघर कटरास- गढ़, धनबाद ।
40	वेस्ट महेशपुर, डाकघर कटरासगढ़, धनबाद	श्री अग्रवाल कोल कम्पनी, डाकघर टुण्डु, धनबाद ।
41	वेस्ट सालनपुर, डाकघर कटरासगढ़, धनबाद	मे. गंगा बिशन मोहन्दा, डाकघर झरिया, धनबाद ।
करनूर कोलफील्ड		
42	पकरीबारवाधीह	सयैद बकीर मेहवी, रांची ।
43	बासुमाता, डाकघर, निरसाचट्टी, धनबाद	डी० एन० चन्ना एण्ड ब्रादर्स, डाकघर निरसा- चट्टी, धनबाद ।
44	मोगकाट, डाकघर मुगमा, धनबाद	सत्य नारायण कोल कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद ।
45	सेन्ट्रल लैकडीह, डाकघर मुगमा, धनबाद	सेन्ट्रल लैकडीह कोलियरी कम्पनी, डाकघर मुगमा, धनबाद ।
46	खास बृन्दावनपुर, डाकघर मुगमा, धनबाद	बालकृष्ण कोल कम्पनी ।
47	खास ऐडगरकुर, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद	बी० एन० मंडल एण्ड एल० एन० अग्रवाल, डाकघर कुमारधुबी, धनबाद ।
48	कूआरदीह, बाराकर, बर्दमान ।	बेनर्जी एण्ड कम्पनी, डाकघर बाराकर, बर्दमान ।
49	लोअर बेगुनिया, डाकघर मुगमा, धनबाद	ऐसोसिएटेड लैकडीह कोलियरी लिमिटेड, 18 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

1

2

3

- 50 सेलेक्टड मालजोरी, डाकघर धनबाद सेलेक्टड मालजोरी कोलियरी कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर नीरसाचट्टी, धनबाद ।
- 51 सेलेक्टड लैंकडीह, डाकघर गोविंदपुर, धनबाद मस्य नारायण अग्रवाल एण्ड अटर्से, डाकघर गोविंदपुर, जिला धनबाद ।
- 52 साउथ ईस्ट बादजना, डाकघर, नीरसाचट्टी, धनबाद जे० के० बेनर्जी एण्ड अटर्से, डाकघर, नीरसाचट्टी, धनबाद ।
- 53 वेस्ट शामपुर, डाकघर नीरसाचट्टी, धनबाद बिहारीलाल अग्रवाल, डाकघर नीरसाचट्टी, धनबाद ।

मध्य प्रदेश

पेच कामहन कोलफील्ड

- 54 ईस्ट बारकुही, डाकघर पारसिया, जिला छिदवाड़ा जे० त्रिवेदी एण्ड ब्रादर्स, बालाघाट, जिला छिदवाड़ा ।
- 55 घोड़ावारी कालान, डाकघर घोड़ावारी छिदवाड़ा टी० के० सुखाला, डाकघर, घोरासोरा, जिला छिदवाड़ा ।
- 56 जामकुन्दा, डाकघर जुनेरदिग्रो, छिदवाड़ा ए० एच० ओझा एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकघर जुनेरदिग्रो, जिला छिदवाड़ा ।
- 57 साउथ पनारा, डाकघर जुनेरदिग्रो, छिदवाड़ा लाल बिखुला-जगन्नाथ, [डाकघर जुनेरदिग्रो ; जिला छिदवाड़ा ।]

उमारिया कोलफील्ड

- 58 उमारिया, डाकघर उमारिया, शाहडोल रेवा कोलफील्डस लिमिटेड, डाकघर उमारिया, शाहडोल ।

पश्चिमी बंगाल

रानीगंज कोलफील्ड

- 59 ऐकराह नंदी (न्यू जामुरी)
- 60 हरसिंगा कोल पिट विश्वनाथ हिमनाथसिंगा ।
- 61 जम्बाद (बंद पड़ी) एस० एस० देवीस जम्बाद कोल कन्सर्न (प्राइवेट) लिमिटेड ।
- 62 जामुरिया 5 एण्ड 6 पिट्स, डाकघर चरनपुर, बर्दवान ईक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 2, फेब्ररलाई प्लेस, कलकत्ता ।
- 63 जामुरिया 7 एण्ड 8 पिट्स डाकघर चरनपुर, बर्दवान ईक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, 2, फेब्ररलाई प्लेस, कलकत्ता ।
- 64 कंकरतोला, डाकघर, रासा, बर्दवान कंकरतोला कोलियरी कम्पनी लिमिटेड, 33/ए, धर्मतोला, कलकत्ता-13 ।
- 65 कास्ता, डाकघर चुरलिया, बर्दवान कास्ता कोलफील्डस लिमिटेड, डाकघर, रानीगंज, जिला बर्दवान ।

1	2	3
66 भवनपुर (सी० एस० धनबाद पत्र सं० सी० एस०/ जनरल /22, तारीख 5-8-64 द्वारा बंद की गई)	घनश्याम कोल इंडस्ट्रीज (प्राईवेट) लिमिटेड, 9 भवानी दत्त लेन, बालकान्ता-7 ।	
67 सालतौर, डाकघर सालतौर, पुरुलिया	बाराकोल कम्पनी , चाटर्ज बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता ।	
68 सेलेक्ट टेड बाराबोनी (मानोरा के साथ आमेलित) डाकघर चरनपुर, बर्दवान	सेलेक्टेड बाराबोनी कोल कम्पनी लिमिटेड डाकघर, चरनपुर, बर्दवान ।	

[सं० को० 2-100 (1)/73]

अरुण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

